

ईश्वरीय
खजाना
टीम
Presents

विशेष पुरुषार्थ

तीव्रता से आगे बढ़ने की श्रेष्ठ युक्तियां

यह श्रेष्ठ पुरुषार्थ की
भिन्न भिन्न युक्तियाँ
बाबा की रोज
जैसे मीठी थपकी है
अन्तर्मन में
जो समा ले इसे
जीवन में उसकी सफलता
शत प्रतिशत पक्की है...



अमृतवेला

यदि अमृतवेले याद की पाँवरफुलं स्थिति बन जाती है, तो वह आपको सारे दिन की दिनचर्या में मदद करेगी। अमृतवेले शक्तिशाली स्थिति बनाने से कठिन-से-कठिन कार्य भी सहज लगेगा और सारे दिन के लिए महानता का अनुभव करेंगे। अमृतवेला मिस करना अर्थात् संगमयुग की विशेष प्राप्तियों को महत्त्व न देना।

Brahma Kumaris

● आज का सुगन्धित पुष्प ●

Fragrant Flower For Today



आप सदा प्रसन्न रह पालना देते हो।

आप उत्साही हो। 😊

**Staying happy always, you provide
sustenance.**

You are enthusiastic! 😊



स्टॉप और स्टॉक

बापदादा- 25.03.2005

वर्तमान समय बापदादा दो बातों पर बार-बार अटेन्शन दिला रहे हैं - एक स्टॉप, बिन्दी लगाओ, प्वाइंट लगाओ। दूसरा - स्टॉक जमा करो। दोनों जरूरी हैं। तीन खजाने विशेष जमा करो - एक अपने पुरुषार्थ की प्रालब्ध अर्थात् प्रत्यक्ष फल, वह जमा करो। दूसरा - सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। सिर्फ रहना नहीं, करना भी। उसके फल स्वरूप दुआयें जमा करो। दुआओं का खाता कभी-कभी कोई बच्चे जमा करते हैं लेकिन चलते-चलते कोई छोटी-मोटी बात में कनफ्यूज हो करके, हिम्मतहीन होकरके जमा हुए खजाने में भी लकीर लगा देते हैं। तो दुआओं का खाता भी जमा हो। उसकी विधि संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। तीसरा - सेवा द्वारा सेवा का फल जमा करना या खजाना जमा करना और सेवा में भी विशेष निमित्त भाव, निर्मान भाव, निर्मल वाणी। बेहद की सेवा। मेरा नहीं, बाबा। बाबा करावनहार मुझ करनहार से करा रहा है, यह है बेहद की सेवा।

ओम् शान्ति




शिवशक्ति सरस्वती माँ

जब मम्मा योग में बैठती थीं अथवा दूसरों को दृष्टि देती थीं उस समय हरेक को विचित्र अनुभव होते थे। मम्मा के स्थूल स्वरूप की बजाय लाइट का स्वरूप ही नज़र आता था। जब मम्मा सामने बैठती थीं तो, जैसे हम कहते हैं कि अव्यक्त वातावरण बनाओ, विदेह अवस्था में रहो, डेड साइलेन्स में रहो, वह सब सहज ही हो जाता था। भले ही, सब ब्रह्मा वत्स जानते थे कि मम्मा कुमारी हैं लेकिन उनको जो भी देखता था मां का, देवी का, फरिश्ते का दर्शन होता था। देहमान होता ही नहीं था, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सहज रूप से चला जाता है वैसे हर ब्रह्मा वत्स मातेश्वरी जी की गोद में चला जाता था।

अव्यक्त शिक्षाएँ



जो सेवा आन्तरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है अर्थात् हृद में ले आती है, आज मौज कल मूँझ, आज खुशी कल व्यर्थ उलझन में डालती है, खुशी से वंचित कर देती है, ऐसी सेवा को छोड़ दो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। अगर ऐसी अनुभूति नहीं है तो वह मिक्स सेवा है। सच्ची सेवा नहीं है।

A woman with long dark hair, adorned with a floral headband and jewelry, sits gracefully on the edge of a wooden boat. She is wearing a vibrant yellow sari with a blue blouse featuring gold floral patterns. The background is a serene sunset scene with a bright sun low on the horizon, casting a golden glow and long rays across the sky and water. The water reflects the light, and a few small boats are visible in the distance. The overall mood is peaceful and contemplative.

**मन बुद्धि को
शक्तिशाली बनादो
तो कोई भी हलचल
में अचल अडोल
रहेंगे..**


Tapovan

Take one step forward
— **with Courage** —
and God will give you

a Thousand Steps of
HELP



BRAHMA KUMARIS





Brahma Kumaris Websites

Main BK website www.shivbabas.org OR
www.brahmakumari.org (by SBS team)

Int'l website: www.brahmakumaris.org

India website: www.brahmakumaris.com

BK Sustenance website:
www.bksustenance.net

All Data hosted on www.bkdrluhar.com

Murli Websites: babamurli.net
and madhubanmurli.org

www.omshantimusic.net

www.bkgoogle.org

www.bksewa.org

www.bkinfo.in

www.bk.ooo

www.brahmakumari.org/centres

NEW

www.IshvariyaKhajana.BKhq.org